

Jamna Auto Industries Ltd.

June 01, 2021

To,

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Street, Mumbai- 400001 Maharashtra Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai - 400 051, Maharashtra

BSE Code: 520051 NSE Code: JAMNAAUTO

<u>Subject- Newspaper Advertisement- Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2021</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copy of newspaper advertisement with respect to Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021 published in Business Standard (All editions) and Jansatta (Delhi edition) dated June 01, 2021.

You are requested to take the same on records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera

Company Secretary & Head-Legal

Encl.: As Above

Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Tele: +91-11-26893331 | Fax: +91-11-26893180 | www.jaispring.com | CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd Office: Jai Spring Road, Yamuna Nagar (Haryana)-135 001, India | Tel: +91-1732-251810 | Fax: +91-1732-251820

YAMUNA NAGAR | MALANPUR | CHENNAI | JAMSHEDPUR | PANTNAGAR | HOSUR | PUNE

WORRYING TREND: Haircut rises to 60% of lenders' claims in FY21, from an average of 55% in the previous years

Mumbai, 31 May

lmost half the cases closed by Indian lenders under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) 2016 in financial year 2021 have ended in liquidation while only 13 per cent cases were resolved.

As of March this year, banks closed 2,653 cases after invoking bankruptcy proceedings against loan defaulters.

In 16 per cent of the cases, they handed over the companies back to the promoters after they cleared part of their dues under Section 12A of the Insolvency Act (see chart). Around 23 per cent of the closed cases are either under review or in the appeals.

Of the total 4,376 cases, 2,653 were closed while the rest are ongoing, statistics by IBBI shows.

In another worrying trend for the lenders, the haircut on resolved cases rose to 60 per cent of the admitted claims from an average of 55 per cent in the previous years

In the March 2021 quarter alone, haircut rose to a whopping 74 per dues by selling plants, machinery cent of the claims made by lenders and other assets of defaulting comit helped companies with good of the admitted cases were initiated

ILLUSTRATION: BINAY SINHA


against defaulters. The haircut is the amount banks forego to settle a nonperforming account. Lenders and corporate lawyers say as 79 per cent of the ongoing cases till March this year have already passed 270 days since admission, thus liquidation in these cases is likely to increase in the next few quarters.

Higher number of liquidations means banks will have to go home with miniscule recovery in their

Latest statistics shows that of the total 4,376 cases, which have been admitted under the insolvency process till March 2021, 499 new cases were admitted in the last financial year. This was due to a one-year suspension of the IBC process by the Centre owing to the Covid-19 pan-

The Centre had launched the IBC process to help banks recover their

REPORT CARD Mode of closure of IBC cases till March 2021



financial track records like Tata Steel, JSW Steel and Ultratech to acquire their rivals, several promoters lost control over their companies.

Sources: IBBI/Kotak Institutional Equities

Statistics for the financial year 2021 shows that 43 per cent of cases admitted so far are filed by the financial creditors. This is in spite of the introduction of a new circular by the Reserve Bank of India (RBI) in June 2019 that removed a clause, which made it mandatory for cases to be dues from chronic defaulters. While admitted to IBC. Around 51 per cent


by the operational creditors.

Lenders said they are expecting to see a sharp jump in the number of cases being admitted as IBC suspension has now been lifted.

But with falling recoveries for the banks, this tool has also lost its steam as compared to the previous years.

Lawyers said more promoters are now taking the one-time settlement route to settle their accounts. The extent of the haircut depends on how much cash is being offered upfront and the rate of interest being offered on the deferred payment and write off amount. "All this will determine how much haircut lenders take in an OTS (one-time settlement) proposal," said Nirav Shah, partner, DSK Legal.

The lenders are also waiting for a long time to get back part of their dues as the average duration of debt resolution is now 406 days for all resolved cases till FY21. This is excluding the time taken during litigation. About 79 per cent of the ongoing cases have crossed 270 days. Of the total admitted cases till FY21. 41 per cent were from the manufacturing space and 30 per cent from real estate and construction.



Former Myntra CEO starts Mensa Brands

After getting a blockbuster exit from the PharmEasy-Medlife deal, former Myntra CEO Ananth Naravanan has launched a new venture -Mensa Brands. It aims to create a technology (tech)-led 'House of Brands' built for the e-commerce industry.

Mensa has closed its Series A funding round, raising \$50 million. The round was led by Accel Partners, Falcon Edge Capital, Norwest Venture Partners, as well as prominent angel investors like Kunal Shah, Mukesh Bansal, Rahul Mehta of DST Global, and Scott Shleifer of Tiger Global. Additionally, debt financing facilities from Alteria Capital and InnoVen Capital have also been secured.

Mensa's vision is to partner and invest in digital-first brands and scale them up exponentially. Over the next three years, the firm will



Ananth Narayanan, raised \$50 mn from Accel, others

acquire over 50 brands across categories, including home, garden, apparel, personal care, and beauty. It will also take these brands to global markets, such as the US and West Asia.

"Scaling up digital brands from India is a large opportunity," said Ananth Narayanan, founder and chief executive officer (CEO), Mensa Brands PEERZADA ABRAR

Business confidence index nosedives: Ficci

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, 31 May

UK-based

fintech firm

Wise enters

Wise, a London-based finan-

cial technology company, has

launched its low cost and fast

international money trans-

fers from India. With this

launch. Indians will be able

to send money to 44 coun-

tries, including the UK, the

US, Singapore, Malaysia, the

UAE and countries in the

Eurozone. The service is

available across Android, iOS

Horowitz, Peter Thiel's Valar

Ventures, billionaire Virgin

Group founder Richard

Branson and PayPal co-

is on average 2x cheaper com-

pared to banks and other pro-

viders like PayPal. About 38

per cent of all transfers

globally are completed

instantly (under 20 seconds).

The firm said it is 100 per

cent online, from verification

to the setting up and comple-

tion of transfers. Also, the

service uses the real, mid-

market exchange rate seen

on Reuters. "Bringing Wise to

India is a big step forward in

our mission to build money

without borders — instant.

convenient, transparent and.

eventually free," said Kristo

Käärmann, CEO and co-

remittances under the

Scheme have been growing

over the years - totalling

\$18.75 billion in FY20, with

travel and paying for studies

abroad accounting for over

60 per cent of the transfers.

Indians are more interna-

tional than ever, with an

increasing need to send

money abroad as quickly,

easily and cost-effectively as

possible," said Käärmann.

to make these transactions

simpler and more pleasant."

APAC and Middle East

expansion at Wise said send-

ing money from India has

been one of the firm's most-

exactly what you're paying

for a transfer, how much

money your recipient is

going to receive and how long

it will take to complete a

transfer, all from your phone

or computer at home.'

"With Wise, you know

requested routes globally.

Venkatesh Saha, head of

With this launch, we hope

The data shows that

The RBI data shows that

Remittance

founder of Wise.

Liberalised

Wise said that its service

founder Max Levchin.

The firm is backed by

India mkt

PEERZADA ABRAR

Bengaluru, 31 May

and the web.

Emphasising the need for another fiscal package, a Ficci survey on Monday said the business sentiment in the country has been deeply impacted due to the second wave of coronavirus

It said that the overall business confidence index has nosedived and stood at 51.5 in the current round after reporting a decadal high value of 74.2

in the previous survey round.

According to Ficci's Business Confidence Survey, there was a "sharp deterioration" in the optimism level of corporate India vis-a-vis the previous survey.

"Worsening current conditions, as well as muted expectations about the near-term prospects on the back of a sweeping second wave of coronavirus infections, pulled down the overall index value by over 20 points,' it said on Monday.

stated weak demand conditions and increasing raw material costs as a

> bothering factor in the current survey. With household income being severely impacted and past savings are already drawn down during the first wave of infections, demand conditions are expected to remain weak

for longer this time around," it added. On the fiscal side, "companies unanimously felt the need for another

The majority of the participants addressing the demand side, it added. Demand boosting measures such as direct income support to rural as

well as urban poor, income tax reductions for the middle class, and temporary reductions in indirect taxes must be urgently considered, the survey suggested. Further, it said that only 19 per cent of respondents were optimistic about better hiring prospects over the next two quarters.

Export prospects are also worfiscal package", focusing majorly on sened noticeably in the current round

with only 27 per cent of respondents indicating higher outbounds shipments. Participants said that only a massive vaccination drive could decouple India's economy from another pandemic-induced shock.

The survey also said that a large proportion of the participating companies emphasised the problem in availing credit and called upon the banking community to further enhance lending at a reasonable

Huhtamaki India Ltd.

(formerly Huhtamaki PPL Limited) Regd. Office: 12A-06, B-Wing, 13th Floor, Parinee Crescenzo, C-38/39, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Tel No.: + 91 (22) 6174 0400, Fax No.: +91 (22) 61740401 Website: www.flexibles.huhtamaki.in Email address: investor.communication@huhtamaki.com CIN No. L21011MH1950FLC145537

NOTICE OF THE 71ST ANNUAL GENERAL MEETING

The Members,

Notice is hereby given that the 71st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Huhtamaki India Limited **("Company")** is scheduled on Tuesday, June 29, 2021 at 11.00 a.m. through Video Conference **("VC")**/Other Audio Visual Means **("OVAM")** facility as per the provisions of the Companies Act. 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular Nos SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12 2020 and January 15, 2021 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India "SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue.

The Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2020 ("Annual Report") along with Notice of the AGM will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("DPs") and the Company's Registrar and Share Transfer Agent, TSR Darashaw Consultants Private Limited ("TCPL"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Member's participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2020 along with the Notice of AGM will be available on the website of the Company i.e. <u>www.flexibles.huhtamaki.in</u> and the website of BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited, i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

The Final Dividend for the financial year ended 31st December, 2020, as recommended by the Board, if approved at the AGM, will be paid within 30 days of declaration, to those Members whose name appears in the Register of Members of the Company as on Thursday, June 10, 2021. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, June 11, 2021 to Tuesday, June 22, 2021 (both days inclusive) for determining the shareholders who are entitled to receive dividend on equity shares.

If your email ID is already registered with the Company/Depository then login details for e-voting are being sent on your registered email address.

In case you have not registered your email ID with Company/Depository and/or not updated your bank account mandate for receipt of dividend, please follow below instructions to:

a) Register your email ID for obtaining Annual Report and login details for e-voting:

b) Receiving dividend directly in your bank accounts through Electronic Clearing Services (ECS) or any other means.

Physical Holdings: Please send a request to the Company at email investor.communication@huhtamaki.com by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of Share Certificate (Front and back), self-attested scanned copy of PAN card

and Aadhar card for registering email address. Following additional details need to be provided for updating Bank account details:

1) Name of Bank and Branch in which you wish to receive your dividend

2) Bank account type

3) Bank Account number allotted by your bank after implementation of core Banking solution 4) 9 digit MICR code

5) 11 digit IFSC code

6) Scanned copy of cancelled cheque bearing the name of first shareholder. Demat Holding: Please provide DPID-CLID (DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investor.communication@huhtamaki.com

Alternatively, shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f April 01, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. The shareholders are requested to update their PAN (Permanent Account Number) with Registrar & Share Transfer Agent, TSR Darashaw Consultants Private Limited ("TCPL") /Company (in case of shares held in physical mode).

A Resident individual shareholder who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H, to avail the benefit of non deduction of tax at source by email to investor.communication@huhtamaki.com. The shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, tax shall be deducted at higher rate of 20%

Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits etc., may send the requisite documents by email to investor.communication@huhtamaki.com. The aforesaid declarations and documents needs to be submitted by the shareholders by 11.59 p.m. IST on or before Thursday, June 10, 2021.

> By Order of the Board For Huhtamaki India Limited D V Iver Company Secretary

For Jamna Auto Industries Ltd P . S Jauhar Managing Director & CEO DIN 00744518

(Rs. in Lakhs)

INVESTOR - BHUTAN

FOR SALE

-35 MVA License with

INDIAN FERRO ALLOY PLANT

MAN DGs


Contact: ferroalloyplantforsale@gmail.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

Elkem SAFs

- 4750 kVa / 2350 kVa

FERRO ALLOY PLANT all approvals



HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED

(An ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Company)

CIN: L36999TN1961PLC004606

Regd. Office: "ESVIN House", 13 Old Mahabalipuram Road, Perungudi, Chennai 600096

Phone:044-24960335, Email: investor@highenergyltd.com

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 The full format of the Quarterly / Annual Financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com. The same is also available on the company's website www.highenergy.co.in under the

(By order of the Board for HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LIMITED G .A. PATHANJAL Managing Directo Place: Chennai Date: 31.05.2021 **JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED**

CIN - L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana

Phone & Fax: 01732-251810/11/14 email: prayeen@iaispring.com

S. No. Quarter ended **Particulars Audited** Audited Unaudited Audited 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2021 Total Income from operations 48,440.18 34.326.14 23,749.43 107,947.84 112,895.15 Net Profit/ (Loss) for the period 4,151.58 6.363.27 1.966.13 10.088.18 7.164.12 (before tax, exceptional items) 3 Net Profit/ (Loss) for the period before tax 4.151.58 10.088.18 7.164.12 6.363.27 1.966.13 (after exceptional items) Net Profit/ (Loss) for the period after tax 3,005.52 4.750.05 1.103.28 7.296.29 4.787.97 (after exceptional items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) 4,797.01 and Other Comprehensive Income (after tax)] 4 741 96 3.005.51 1 124 56 7.259.76 3.983.25 3.983.25 **Equity Share Capital** 3.983.25 3.983.25 3 983 25 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 54.017.41 47.687.27 Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised)

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARH 31, 2021

Notes:

(In Rs.)

Diluted:

Basic:

The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together referred as ""the Group"") for the quarter and year ended March 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 31, 2021.

1.19

1.19

0.76

0.76

0.28

0.28

1.83

1.83

1.20

1.20

Information of standalone audited financial results in terms of the Listing Regulations is as under

					(I	Rs. in Lakhs)
S.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
No.		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Revenue from operations	47,225.29	33,304.83	21,055.26	105,270.66	105,882.11
2	Profit before tax	6,429.02	4,089.86	1,788.68	10,265.11	6,855.49
3	Total Comprehensive income for the period	4,834.83	3,072.10	1,117.91	7,625.97	4,806.51

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com

Date: May 31, 2021 Place: New Delhi







1st June, 2021

Mumbai



सूचकांक में 500 अंक का उछाल निफ्टी रेकॉर्ड ऊंचाई पर

फिर बढ़े ईंधन के दाम, राजस्थान में डीजल

98 रुपए लीटर पार

टेंडर नोटिस सं. 83215119

क्र.सं. निविदा सं. | संक्षिप्त विवरण

टोल फ्री नं0 18004190405

मुंबई, 31 मई (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सोमवार को करीब 515 अंक उछलकर 51,937.44 अंक पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में लगातार सातवें दिन तेजी बनी रही और यह रेकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े आने से पहले रिलांयस इंडस्टीज, आइसीआइसीआइ बैंक और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लि. में मजबूत लिवाली देखी गई।

तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक में लगातार चौथे दिन तेजी रही और यह 514.56 अंक यानी एक फीसद उछलकर 51,937.44 अंक पर बंद हुआ। इस साल 15 फरवरी के रेकॉर्ड बंद स्तर से यह करीब 200 अंक नीचे रह गया। निफ्टी भी 147.15 अंक यानी 0.95 फीसद की मजबूती के साथ 15,582.80 अंक के रेकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। यह लगातार तीसरा सत्र है जब निफ्टी रेकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है।

सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में रिलायंस

नई दिल्ली, 31 मई (भाषा)।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में

बढोतरी का सिलसिला सोमवार

को भी जारी रहा। इसके कारण

डीजल का दाम राजस्थान के कछ

स्थानों पर 98 रुपए लीटर के स्तर

कंपनियों द्वारा जारी मूल्य

अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की

कीमत में 29 पैसे और डीजल में

26 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई।

इस महीने की गई 16वीं बढ़ोतरी

के साथ ही देश भर में पेटोल और

डीजल की कीमतें अब तक के

उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में

पेटोल की कीमत 105.24 रुपए

और डीजल की कीमत 98.08

वैट और माल ढुलाई शुल्क

जैसे स्थानीय करों के कारण

विभिन्न राज्यों में ईंधन की

कीमतें अलग-अलग होती हैं।

देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक

वैट राजस्थान में लगता है,

जिसके बाद मध्य प्रदेश और

महाराष्ट्र का स्थान है। दिल्ली में

पेट्रोल 94.23 रुपए और डीजल

85.15 रुपए प्रति लीटर है।

औद्योगिक

श्रमिकों के लिए

खुदरा महंगाई अप्रैल में घटकर

5.14 फीसद रही

कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों

में कमी के कारण औद्योगिक

श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई

(मुद्रास्फीति) अप्रैल 2021 में

घटकर 5.14 फीसद हो गई, जो

मार्च में 5.64 फीसद थी।

श्रम मंत्रालय

ने सोमवार को

एक बयान में

कहा कि अप्रैल

में साल-दर-

साल आधार पर

महंगाई 5.14

फीसद रही, जो

महीने में 5.64

पिछले साल के

समान महीने में

5.45 फीसद

थी। बयान के

अनुसार खाद्य

माुद्रास्फीति

अप्रैल में 4.78

फीसद रही, जो

महीने में 5.36

अप्रैल 2020 में

थी। उपभोक्ता

मूल्य सूचकांक

अप्रैल 2021 में

बढ़कर 120.1

अंक हो गया,

था। श्रम मंत्री

संतोष गंगवार ने

सुचकांक में वृद्धि

से श्रमिक वर्ग

का वेतन बढ़ेगा,

क्योंकि उन्हें देय

महंगाई भत्ते में

बढोतरी होगी।

जो मार्च

119.6

पिछले

और

अंक

अंक

कि

फीसद

इससे

फीसद

6.56

0.5

पिछले

और

इससे

फीसद

नई दिल्ली, 31 मई (भाषा)।

रुपए लीटर हो गई।

सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन

को पार कर गया।

इंडस्ट्रीज रही। कंपनी का शेयर 3.13 फीसद मजबूत हुआ। इसके अलावा आइसीआइसीआइ बैंक, भारती एअरटेल, डॉ. रेड्डीज, मारुति, आइटीसी, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक में भी अच्छी तेजी रही। दूसरी तरफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, एलएंडटी और सन फार्मा आदि शेयरों में गिरावट रही। इनमें 4.53 फीसद तक की गिरावट आई।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर के अनुसार वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े आने से पहले शेयर बाजार में तेजी रही। जीडीपी आंकडे को लेकर मिला-जुला अनुमान है। लेकिन 2021-22 के लिए इसके बेहतर रहने की संभावना है। इसके अलावा कोविड मामलों में दैनिक आधार पर कमी से भी बाजार को मदद मिल रही है। प्रमुख शेयरों में तेजी से भी बाजार को समर्थन मिला। बेहतर आर्थिक वृद्धि के अनुमान में धातु, निजी बैंक और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी रही।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रुड का भाव 1.08 फीसद बढ़कर 69.46 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे ट्रटकर 72.62 पर बंद हुआ।

दिनांक : 31.05.2021

अंतिम तिथि

22.06.2021

Dated: 31.05.2021

मुख्य प्रबंधक (सुरक्षा)

पेट्रोल की कीमत राजस्थान, मध्य में सौ रुपए लीटर के आंकडे को

उत्तर रेळवे

इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई-प्रणाली के अंतर्गत

मदों की आपूर्ति हेत् निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे. नई दिल्ली-110001 द्वारा इच्छक

निविदा शर्ते—1. विरतृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानि www.ireps.gov.in पर देखी जा

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, डोईवाला कॉरपोरेट आईडेन्टटी संख्या U40109UR2001SGC025867 दूरनाथ 0135-2695245

निविदा निरस्तीकरण सूचना

निविदा संख्या 03 / वि०वि०ख०डो० / 2021–22 जोकि दिनांक 04.05.2021 को सांय

15:30 बजे खोली जानी थी, को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है

राष्ट्र हित में बिजली बचायें, बिजली बचाने हेतु एल0ई0डी0 बल्ब का प्रयोग करें। (टोल फ्री नं0 1912) विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाईन भुगतान हेतु www.upd.org पर जाए। (विद्युत चोरी की सूचना

टोल फ्री नं0 1800 180 4185/फैक्स संख्या — 0135-2760911 पर दें)

पंजाब नैशनल बैंक 🕒 punjab national bank

प्रधान कार्यालय, सुरक्षा प्रभाग

प्रथम तल, प्लॉट सं.-4, सैक्टर-10, द्वारका, नयी दिल्ली - 110075

निविदा सचना

पंजाब नैशनल बैंक ने पात्र आवेदकों से बैंक की दिल्ली में स्थित विभिन्न इमारतों के

इलेक्ट्रोनिक सिक्युरिटी सिस्टम के संचालन व वार्षिक रखरखाव के कार्य हेतु सर्विस

रौनक इंपोसी इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकत कार्यालयः 20 कि.मी. मधुरा रोड. पो. ओ. अमर नगर,

फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

दूरभाषः +91 (129) 4288888 फैक्सः +91 (129) 4288822-23

सीआईएन: L51909HR1965PLC034315

ई-मेलः info@raunaqintl.com वेबसाइटः www.raunaqinternational.com

कम्पनी सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 ("एलओडीआर

अधिनियम") के अधिनियम 47(1)(अ) के साथ पठित अधिनियम 29 के प्रावधानों के संदर्भ मे

सूचित किया जाता है कि एलओडीआर अधिनियम के अधिनियम 33 के अनुसार कम्पनी के

निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 22 जून, 2021 को ऑडियो विजुअल माध्यम के जरिये

31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही एवं वार्षिक के एकल एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.raunaginternational.com तथा स्टॉक एक्सचेंज

आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 29.06.2021 को दोपहर 2 बजे तक है।

प्रोवाइडर के एमपेनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

विवरण हेतु हमारी वैबसाइट https://pnbindia.in देखें।

परिणामों पर विचार तथा स्वीकृति हेत् आयोजित की जाएगी।

की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

अधिशासी अभियन्ता. विद्युत वितरण खण्ड, डोईवाला

प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों पार कर चुकी है।

फर्मों से निम्नलिखित मदों के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

83215119 C-Arm imaging system

सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

नई दिल्ली, 31 मई (भाषा)।

वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं सोने और चांदी में तेजी के रुख के बाद दिल्ली सर्राफा बाजार

195 रुपए बढ़कर 48,608 रुपए प्रति दस ग्राम हो गया। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 48,413 रुपए प्रति दस ग्राम था। चांदी भी इस दौरान 15 रुपए की मामुली गिरावट के साथ 70,521 रुपए किलो रह गई जो पिछले कारोबारी सत्र में 70,536 रुपए किलो थी।

रेलटेल (भारत सरकार का एक उपक्रम)

निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज www.railtelindia.com पर उपलब्ध है और इसे ई—टेंडरिंग पोर्टल https://www.ireps.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य के सभी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र केवल रेलटेल वेबसाइट और

ई-टेंडरिंग पोर्टल पर ही अपलोड किये जाएंगे। तराई फूड्स लिमिटेड CIN: L15142DL1990PLC039291 पंजी. कार्यालयः 13, हनुमान रोड, कनाट प्लेस.

नई दिल्ली-110001 website: www.taraifoods.com, Email: grvnces.tfl@gmail.com Tel No.: 011-41018839

सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियम 29 एवं 33 के अनपालन में. एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, तथा अध्यक्ष की अनमति से किसी अन्य विषय पर विचार

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.taraifoods.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज तराई फूड्स लिमिटेड

प्रबंध निदेशक स्थानः रुद्रपुर DIN No: 00053527 दिनांक: 31.5.2021

पब्लिक कम्पनी से प्राईवेट कंपनी के परिवर्तन के लिए विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, मीनीस्ट्री ऑफ कोरपोरेट आफेवर्स

उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

मैसर्स पूर्वा स्टील लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय : एव नं.—487 / 90, जी / एफ

पीरा गढ़ी नॉर्थ वेस्ट नई दिल्ली 110087 के मामले में ('आवेदक / कम्पनी') एतदद्वारा सर्वसाधारण को सुवित किया जाता है कि

के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित होती हो, तो वह अपनी अभिरुचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए इलफनामे द्वारा समर्थित विरोध को पंजीकृत हाक द्वारा आवेदनकर्ता कंपनी को नीचे वर्णित पंजीकृत पते को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2, विंग, दूसरी गंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं।

पंजीकृत कार्यालय : एव नं.—487/90, जी/एफ पीरा गढ़ी नॉर्थ वेस्ट नई दिल्ली 110087 सूर्य प्रकाश पूर्वा

दिनांक : 01.06.2021 रीआईएन : 01261584,

(Rs. in Lakhs)

(Rs. in Lakhs)

सोने में 195 रुपए की मजबूती

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-

धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली,

2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज

(ए) के मामले में

एनकेपी अबासन प्राईवेट लिमिटेड (CIN

U25200HR2019PTC082994) जिसका

पंजीकत कार्यालय 6738, गली नं. 2, ब्लॉक नं.

10, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005,

एतदद्वारा आम जनता को सचित किया जाता है कि

'दिल्ली राज्य'' से ''पंजाब राज्य'' में उसके

पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए

कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 30 अप्रैल, 2021

को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष

प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ

एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह

कम्पनी केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक मे

निहित के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित

परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता

हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)

पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा

उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक

कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के

प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित

की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते

हए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल

पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-

110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत

कृते एवं के लिए

DIN: 02000101

चेतन जैन

निदेशक

UNIVERSAL OFFICE AUTOMATION LIMITED

CIN: L34300DL1991PLC044365

806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi - 110019

website: uniofficeautomation.com

In compliance to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure

Requirements) Regulation 2015 notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of

the Company is scheduled to be held on Wednesday, 09" June, 2021 at 3.30 p.m. inter alia to

This intimation is also available on the website of the Company at www.uniofficeautomation.com

Further in terms of 'Minimum Standards for Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report

Trading' for dealing in securities of the company, the Company the trade closure period

(i.e. closure of trading window) commenced from 6.00 p.m. on 01-04-2021 and shall end 48 hours

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

23.06.2021 को 15:30 बजे

www.concorindia.com पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सुधना का अवलोकन करें लेकिन पूर्ण निविदा दस्तावेज केवल

बसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलीड किये जा सकते हैं। इसके जलावा, इस निविदा

शुद्धिपत्र / परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे केंद्रल वेबसाइट www.concorindia.com एव www.tenderwizard.com/CCIL सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र में प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]

ऑन-डॉट कृरियर एण्ड कार्गी लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान प्लॉट नं. 7, 2रा तल, ब्लॉक-2, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया,

7. कॉपोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि 24.05.2021 (आदेश 29.05.2021 को प्राप्त हुई)

दिल्ली-110015

02.05.2021

9. बोर्ड में पंजीकत परिसमापक का पता तथा ईमेल: श्याम अरोडा. 96. अरावली अपार्टमेन्ट, अलकनंदा, नई दिल्ली-1100

10. परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने श्याम अरोड़ा, 96, अरावली अपार्टमेन्ट, अलकनंदा, नई दिल्ली-1100

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 24.05.2021 (आदेश 29.05.2021

एतदृद्वारा मै. ऑन-डॉट कुरियर एंड कार्गो लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आईटम नं. 10 में वर्णित

फाइनांसियल केडीटर्स केवल इलेक्टॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी केडीटर्स प्रमाण के

निर्धारित प्रपत्र अधोलिखित लिंकः https://ibbi.gov.in/downloadform.html से डाउनलोड की जा सकती है।

आईबीसी, 2016 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना

आईबीसी, 2016 के अंतर्गत बिक्री सचना

को प्राप्त) को मै. ऑन-डॉट कुरियर एंड कार्गो लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

पते पर परिसमापक के पास 28.06.2021 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

जैनकौर निम्निसिखित कार्य के लिए एकल बोली प्रणाली में ई—निविदा आमंत्रित करता है।

नेविदा जमा करने की अतिम तिथि एवं समय | 22,06,2021 को 17:00 बजे तक

वितीय योग्यता मापदंड, समान प्रकार के कार्य के संबंध में अनुभव आदि के

4. कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का U64100DL1991PLC045783

८ परिसमापक के रूप में कार्यरत दन्मॉल्वेन्सी श्याम अरोड़ा पंजी सं

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) एनएसआईली न्यू एमडीबीपी बिल्डिन, दूलही मंधित, ओखता ओबोनिक एस्टेट, नई दिल्ली-116029

कॉन/ईपी/एरिया-1/जोन-3/2021-22

क्षेत्र-1 (उत्तर) में जोन-3 (अधार्थ पंजाब राज्य मंद्यारण निगम-दप्पर

आई.सी.डी.-डंडारी कर्लो लुधियाना, दप्पर, फिल्लीर, बदी एव

शून्य, ठेकेदार को संलग्नक-ई के अनुसार 'बोली सुरक्षा घोषणापत्र

च. 1.000 / —(सभी कर एवं प्रभारों सहित ई—भगतान के माध्यम सं)

ह. 5310 / –(सभी कर एवं प्रभारों सहित ई–भुगतान के माध्यम से)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय. कम्पनी रजिस्टार (आरओसी) दिल्ली

IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-18/11703

ऑन-डॉट कूरियर एंड कार्गो लि. के परिसमापक

पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00546/2017-18/11703

ईमेल : arora.shyaam@yahoo.com

ईमेल : arora.shyaam15@gmail.com

01.06.2021 (11:00 बजें) से 21.06.2021 (17:00 बजे तक)

सुरानशी) में सिविल कार्यों के दैंनिक मरम्मत एवं रख रखाव।

consider the Audited results of the Company for the Quarter & Year ended on March 31", 2021.

and may also be accessed on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com.

एनकेपी अबासन प्राईवेट लिमिटेड

after the results are made public i.e. on 09-06-2021.

के मामले में

डाक से भेजें:

तिथि: 01.06.2021

स्थानः दिल्ली

May 31, 2021

नेविदा सं.

कार्य का नाम

पर्णता अवधि

अनुमानित लागत

धरोहर जमा राशि

नेविदा दस्तावेज की कीमत (अ-प्रतिदेय)

2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि

लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या

कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

6. इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि

निगमित/पंजीकृत है

वाला पता तथा ईमेल

तिथिः 01.06.2021

स्थानः दिल्ली

11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

नेविदा प्रक्रिया शुल्क (अ–प्रतिदेय)

नेविदा खुलने की तिथि एवं समय

नेविदा बिक्री तिथि (ऑनलाइन)

में सोमवार को सोने का भाव

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कह कि कॉमेक्स (न्यूयॉर्क आधारित जिंस एक्सचेंज) में सोने की कीमतों में मजबूती के अनुरूप दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 195 रुपए की तेजी

माईएन स. यु64202कीएल2000जीओजाई107908

ई-निविदा सं. : रेलटेल/निविदा/ओटी/ उ.से./ओएंडएम /2021-22/वीएसएस/02 दिनांकः 28.05.2021 रेलटेल / उत्तरी क्षेत्र द्वारा "भारतीय रेल के लिए रेलटेल के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित विडियो निगरानी प्रणाली (वीएसएस) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, मौजुदा वीएसएस इन्फ्रा के साथ इंटीग्रेशन, संचालन एवं अनुरक्षण' हेत् ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

10 जून, 2021 को 4.30 बजे अप. में संधू फार्म्स, रुद्रपुर, उत्तराखंड में आयोजित की जायेगी जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

की वेबसाईट www.bse.com पर देखी जा सकती है।

जी एस. संध

फार्म नं. आईएनसी-25ए

कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम की धारा 14 व कंपनी (ईनकोरपोरेशन) निवम, 2014 के निवम 41 के मामले में और

कंपनी उपरोक्त नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली) को आवेदन करने की इब्दुक है और ऐसे परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए कंपनी को सक्षमक करने के लिए 28.05.2021 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलने की इच्छक है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरुचि कंपनी के पंजीकृत कार्यायल

मैसर्स पूर्वा स्टील लिमिटेड

आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 1,905 डॉलर प्रति औंस पर ऊंचा रहा जबकि चांदी का भाव 27.95 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रहा।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के [कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] नियम 30 के अनुपालन में] केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष दिल्ली के समक्ष

> कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

> आर एस जैन ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U51109DL2006PTC318950) जिसका पंजीकृत कार्यालय 6738, गली नं. 2, ब्लॉक नं. 10, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, के मामले में

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि 'दिल्ली राज्य'' से ''पंजाब राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 30 अप्रैल, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कम्पनी केन्द्र सरकार, शक्ति क्षेत्रीय निदेशक मे निहित के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत

कत्ते एवं के लिए आर एस जैन ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड तिथि: 01.06.2021 स्थानः दिल्ली चेतन जैन

DIN: 02000101

For Universal Office Automation Limited

Naina Luthra

Company Secretary

भारतीय स्टेट बैंक आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद एससीओ-98, प्रथम एवं द्वितीय तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद, दूरभाष : 0129-2289222 फैक्स : 0129-2290222

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में भारतीय स्टेट बैंक आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद का का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों श्रीमती नीति द्विवेदी तथा श्री अवनीश के. द्विवेदी, फ्लैट नं. 703, पेट्रोनास, टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, सेक्टर-86, फरीदाबाद-121002 जमानतियों : 1. श्रीमती नीति बियाला द्विवेदी C/o मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड, बी1/1-2, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, निकट एक्सिस बैंक, नई दिल्ली-110044, 2. श्री अवनीश के. द्विवेदी C/o अवनीश द्विवेदी एण्ड एसोसिएट्स, ए-308, एलजीएफ डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110002 से सुचना में लिखित राशि रु. 36,71,113.00 (रुपये छत्तीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ तेरह मात्र) तथा 29.12.2020 से अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि का कथित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 29.12.2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार खाता सं. 36626691241 तथा 36751742135 के माध्यम से राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहे, एतद्वारा कर्जदार तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 28.05.2021 को कब्जा कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता/जमानती औ जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियो के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 36,71,113.00 (रुपये छत्तीस लाख इकहत्तर हजार एक सौ तेरह मात्र) तथा 29.12.2020 से अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं आकरिमक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति फ्लैट सं. 703, पेट्रोनास टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, सेक्टर-86, फरीदाबाद-121002 का सम्पूर्ण भाग। स्थान : फरीदाबाद

भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरर्स

punjab national bank

सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग

प्रधान कार्यालय, प्लाट सं ४, सेक्टर – 10, द्वारका नई दिल्ली-110075 फोन : 011-28044402 ईमेल : maintenance@pnb.co.in

ई-निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक योग्य निविदाकर्ताओं से **"प्रधान कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक**, द्वारका, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075 स्थित विद्युतीय प्रतिष्ठापन, डी.जी. सेट एवं सिविल कार्य (प्लबींग इत्यादि) के वार्षिक रखरखाव अनुबंध और संचालन एवं रखरखाव" हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत रु 182 लाख (GST सहित) है। निविदा लागत रु 5900/- (18% GST सहित)। निविदा बँक की वैबसाइट https://etender.pnbnet.in या https://pnbindia.in से

डाउनलोड की जा सकती है। निविदा दस्तावेज को डाउनलोड, बोली तैयार एवं हैश प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22.06.2021, 1600 बजे तक है। बिंड सबिमशन एवं री-एनक्रिप्शन की अंतिम तिथि 23.06.2021, 1200 बजे तक है। टेकनिकल बिड ओपेनिंग 23.06.2021, 1201 बजे

उपर्युक्त कार्य के संबंध में, कोई भी शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट https://etender.pnbnet.in or https://pnbindia.in पर जारी किया जाएगा, जिसे नियमित रूप से देखा जा सकता है। मुख्य प्रबंधक

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड

रजि. ऑफिसः 904, 9वीं मंजिल, सूर्या किरन बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001 **कॉर्पोरेट ऑफिस**: क्यूआरजी टॉवर्स, 2डी, सेक्टर-126, एक्सप्रेसवे, नोएडा-201 304, फोन: #0120-3331000, फैक्स: #0120-3332000, वेब: www.havells.com ई-मेलः investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की 38वीं एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) / ओएवीएम (अन्य ऑडियो-वीडियो माध्यम)

1. एतदहारा सुचित किया जाता है कि कंपनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक (वार्षिक आम बैठक) 30 जून, 2021, बुधवार को सुबह 10:00 बजे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 और अन्य सभी लागू कानूनों और परिपत्रों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी), नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए आयोजित की जायेगी।

2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल पते पंजीकृत हैं / कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास उपलब्ध हैं। डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से पंजीकृत करें। मौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते तथा मोबाईल नम्बर्स कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, लिंक इन्टाइम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहला तल, प्लॉट नं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058. टेलीफोन: 011—41410592, 93, 011—49411000, फैक्स: 011—41410591, ई-मेल: delhi@linkintime.co.in, वेबसाईट: www.linkintime.co.in के पास प्रस्तुत करें ।

3. एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.havells.com, स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई और बीएसई) की वेबसाइटों और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting. nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

 शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर अपना वोट दूरस्थ रूप से डालने का अवसर होगा। डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए और अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों के लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका शेयरधारकों को नोटिस में प्रदान किया जाएगा। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि इस तरह के विवरण के लिए www.havells.com पर जाए।

5. 38वीं एजीएम की सुचना शेयरधारकों को उनके ई-मेल पते पर लाग कानुनों के अनुसार शीघ्र ही भेजी

 एतदद्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 42 के अनुपालन में कंपनी के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 19 जुन, 2021, शनिवार से 23 जुन, 2021, ब्धवार (दोनों दिन सम्मिलित) त्तक बंद रहेंगी, इस दौरान 20 मई, 2021 को आयोजित बोर्ड की बैठक में बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 1 रु. के इविवटी शेयरों पर प्रति शेयर 3.50 रुपये के अंतिम लाभांश के भूगतान की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

कते हैवेल्स इंडिया लिमिटेड हस्ता/-संजय कुमार गुप्ता कंपनी सचिव

दिल्ली, 31 मई, 2021

HAVELLS

(रु. करोड़ में)

ई-नीलामी बिक्री सूचना (ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता 2016 के तहत जारी कंसर्न के रूप में हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन) की बिक्री)

न्यायक्षेत्र प्राधिकरण, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नियक्त परिसमापक द्वारा भारतीय ऋणशोधन अक्षमत तथा दिवालिया बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(ङ) के तहत जारी कंसर्न के रूप में हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (''कम्पनी या कॉर्पोरेट देनदार'') (परिसमापनाधीन) की बिक्री। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वार एमएसटीसी लिमिटेड के वेब पोर्टल https://www.mstcecommerce.com पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम रं सम्पन्न होगी। संविदाएं जमा करने हेतु यह ई–नीलामी 30 जुन, 2021 को 10.00 बजे पूर्वा. से 30 जुन, 2021 को 06.00 बजे अप. तक पोर्टल पर लाइव होगी कॉर्पोरेट देनदार की आस्त्रियों का विवस ईएमडी राशि

विनियम 32(ङ) परिसमापन विनियम के तहत जार्र कंसर्न के रूप में हिन्दस्तान पेपर कॉर्पीरेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन) की बिक्री (प्रक्रिया ज्ञापन दिनांक 1 जून, 2021 का संदर्भ लें) ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :

(रु. करोड़ में)

(रु. करोड़ में)

. ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड के अनुमोदित सेवा प्रदाता के माध्यम से ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर संचालित की जायेगी। ऑनलाइन नीलामी बिक्री के ऑनलाइन ई-नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा सामान्य नियम एवं शर्तों सिहत ई-नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com तथ www.hindpaper.in पर उपलब्ध हैं।

2. कम्पनी के अधिक विवरण के लिए आप प्रतिनिधि से ई-मेल के माध्यम से liquidation.hpcl@gmail.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। 3. इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के ऋणभारों, सम्पत्ति वे

स्वामित्व/दावों/अधिकारों/बकायों/प्रभावित करने वाले तथ्यों के विषय में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ, अपने व्यय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर लेना चाहिए और स्वयं को सन्तष्ट कर लेना चाहिए। । इच्छक संविदाकारों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रावधानित विवरण पर सीधै

एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से रु. 55 करोड़ की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। . इच्छक संविदाकारों को ई-नीलामी में भाग लेने हेत (1) पहचान का प्रमाण (2) वर्तमान पते के प्रमाण (3) पैन कार्डी (4) वैध ई-मेल आईडी (5) सम्पर्क विवरण की स्व-सत्यापित प्रति सहित ईएमडी जमा का प्रमाण और निवेदन पत्र परिसमापक के कार्यालय पर अथवा नीचे दिये गये ई-मेल पते पर 15 जन, 2021 को 6,00 बजे अप. से पर्व जमा करने

6. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र संविदाकारों के नाम परिसमापक द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे। ई-नीलामी सेवा प्रदात ऑनलाइन ई-नीलामी में संविदा के लिए केवल पात्र संविदाकारों को ही अनुमित देंगे।

. यदि संविदा ई–नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 8 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही असीमित विस्तार के साथ 8 मिनटों के लिए बढ़ जायेगा। जो संविदाकार ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के समय उच्चतम बोर्ल (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किया जायेगा और इस प्रभाव से उसे इलेक्टॉनिक माध्यम से सचित किया जायेगा जो परिसमापक के अनमोदन के अध्यधीन होगा।

s. सफल संविदाकार की ईएमडी बिक्री वसुली के भाग के रूप में रख ली जायेगी और असफल संविदाकारों की ईएमडी ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा वापस कर दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल संविदाकार को बिक्री राशि की बिक्री वसली का शेष भाग एलओआई के निर्गमन के 30 दिनों के भीतर अर्थात 31 जलाई तक परिसमापक द्वार संविदा मुल्य की स्वीकृति पर (ईएमडी के समायोजन के पश्चात) जमा करनी होगी। सफल संविदाकार द्वारा राशि जम

करने में चूक करने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी। २. क्रेता को नीलामी के माध्यम से कम्पनी क्रय करने के परिप्रेक्ष्य में प्रयोज्य स्टैम्प इयुटी/हस्तान्तरण प्रभार आदि तथा समस्त विधिक/गैर-विधिक बकायों, जीएसटी करों, दरों, अभिनिर्धारण प्रभारों, शुल्कों आदि का वहन करना होगा। 10. परिसमापक को कोई या सभी प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी को स्थगित/आस्थगित/निरस्त करने

अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में नीलामी प्रक्रिया से किसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को आहरित करने का पर्ण अधिकार है। 1. कॉर्पोरेट देनदार की आस्तियों का विवरण कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.hindpaper.in पर अपलोड प्रक्रिय

ज्ञापन दिनांक 01 जून, 2021 में उपलब्ध है। 12. बिक्री प्रमाणपत्र/अनुबंध केवल सफल संविदाकार के नाम में जारी किया जायेगा और किसी अन्य के नाम में जारी नहीं

।3. यह बिक्री ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके तहत निर्मित विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन होगी 4. परिसमापक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु समय के एक्स्क्लूजन के लिए माननीय

एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया गया है।''जारी कंसर्न'' के रूप में हिन्दस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बिक्री का यह प्रस्ताव इस संबंध में माननीय एनसीएलटी के निर्णय के अध्यधीन होगा। 15. ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 30 जून, 2021 को 10.00 बजे प्रात: से 30 जून, 2021 को 6.00 बजें अप. तक (8 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

अन्तिम बिक्री वसूली के भुगतान की समय-सीमा प्रयोज्य कानूनों तथा विनियमों के तहत अनुमत्य सीमा तक परिसमापक के विवेकानुसार विस्तारित की जा सकती है। यदि समय-सीमा के भीतर अन्तिम बिक्री वसूली का भुगतान नहीं किया जाता है तें परिसमापक द्वारा ईएमडी जब्त कर ली जायेगी।

> कुलदीप वर्मा-हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसमापक आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038 पंजीकृत पता : 46 बी.बी. गांगुली स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, युनिट नं. 501, कोलकाता-700012 पंजीकृत ई-मेल : kuverma@gmail.com. दूरभाष : +91 98360 77900

स्थानः फरीदाबाद

तिथि: 31.05.2021

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

रश्मि असवाल

(कंपनी सचिव)

कृते रौनक ईपीसी इंटरनेशनल लिमिटेड

Read. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana Phone & Fax: 01732-251810/11/14 email: praveen@jaispring.com

S.	Particulars		Quarter ende	d	Year ended		
No.	i di distanti	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	
1	Total Income from operations	48,440.18	34,326.14	23,749.43	107,947.84	112,895.15	
2	Net Profit/ (Loss) for the period						
ΙI	(before tax, exceptional items)	6,363.27	4,151.58	1,966.13	10,088.18	7,164.12	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax						
1. 1	(after exceptional items)	6,363.27	4,151.58	1,966.13	10,088.18	7,164.12	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	4 === 0 ==					
ا ۽ ا	(after exceptional items)	4,750.05	3,005.52	1,103.28	7,296.29	4,787.97	
5	Total Comprehensive Income for the period						
ΙI	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)	4 744 06	2 005 54	1 104 56	7 250 76	4 707 04	
$\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$	and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital	4,741.96 3,983.25	3,005.51 3,983.25	1,124.56 3,983.25	7,259.76 3,983.25	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,963.25	3,963.25	3,963.25	54,017.41	47,687.27	
'8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised)				34,017.41	47,007.27	
I I I	(In Rs.)						
ΙI	Basic:	1.19	0.76	0.28	1.83	1.20	
	Diluted:	1.19	0.76	0.28	1.83	1.20	
بب							
Notes:	Notes:						

1. The above consolidated financial results of Jamna Auto Industries Limited ('the parent Company') and its subsidiaries (together referred as ""the Group"") for the guarter and year ended March 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on May 31, 2021.

2. Information of standalone audited financial results in terms of the Listing Regulations is as under:

S.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
No.		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
\Box	Revenue from operations	47,225.29	33,304.83	21,055.26	105,270.66	105,882.11
2	Profit before tax	6,429.02	4,089.86	1,788.68	10,265.11	6,855.49
3	Total Comprehensive income for the period	4,834.83	3,072.10	1,117.91	7,625.97	4,806.51
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI						

(Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company at www.jaispring.com.

P. S Jauhar

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARH 31,2021

	(NO: III Edition					
S.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
No.		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
$\lceil 1 \rceil$	Total Income from operations	48,440.18	34,326.14	23,749.43	107,947.84	112,895.15
2	Net Profit/ (Loss) for the period					
1.1	(before tax, exceptional items)	6,363.27	4,151.58	1,966.13	10,088.18	7,164.12
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax				40.000.40	
1.1	(after exceptional items)	6,363.27	4,151.58	1,966.13	10,088.18	7,164.12
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	4 750 05	2 005 52	4 402 20	7 206 20	4 707 07
5	(after exceptional items) Total Comprehensive Income for the period	4,750.05	3,005.52	1,103.28	7,296.29	4,787.97
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)					
ΙI	and Other Comprehensive Income (after tax)	4,741.96	3,005.51	1,124.56	7,259.76	4,797.01
6	Equity Share Capital	3,983.25	3,983.25	3,983.25	3,983.25	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,000.20	0,000.20	54,017.41	47,687.27
8	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (not annualised)				.,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ΙI	(In Rs.)					
ΙI	Basic:	1.19	0.76	0.28	1.83	1.20
	Diluted:	1.19	0.76	0.28	1.83	1.20
-						

Date: May 31, 2021

Place: New Delhi

S.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
No.	1 41 1104 1410	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Revenue from operations	47,225.29	33,304.83	21,055.26	105,270.66	105,882.11
2	Profit before tax	6,429.02	4,089.86	1,788.68	10,265.11	6,855.49
3	Total Comprehensive income for the period	4,834.83	3,072.10	1,117.91	7,625.97	4,806.51
The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI						

For Jamna Auto Industries Ltd

Managing Director & CEO DIN 00744518

मैसर्स इनकॉम वायर्स एंड केवल्स लिमिटेड (परिसमापन में) CIN: U74899DL1992PLC050243 पंजीकृत कार्यालय : सी−46, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज− II, नई दिल्ली−110064 **परिसमापक का कार्यालय** : 1670 / 120, शांति नगर, त्रि-नगर, दिल्ली - 110035

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली शाखा द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा गोइंग कंसर्न के रूप में मैसर्स इनकों म वायर्स एंड के बल्स लिमिटेड (परिसमापन में) की बिक्री अधोहस्तक्षरी द्वारा

ई—नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net द्वारा की जायेगी। विवरण : सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों मात्र के साथ गोइंग कंसर्न के रूप में मैसर्स इनकॉम वायर्स एंड केंबल्स लिमिटेड (परिसमापन में) की बिक्री

(प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) आरक्षित मूल्य (आईएनआर): रू. 2,54,00,000 / - (रूपये दो करोड़ चौवन लाख मात्र) **ईएमडी राशि एवं दस्तावेजों को जमा करने की समय** : (रूपये पच्चीस लाख चालीस हजार

ई—नीलामी तिथि एवं समय : तिथि :14..06.2021 समय: 3.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक

मात्र) 11.06.2021 बोली वृद्धि मूल्य : रू. 2,00,000 / -निरीक्षण की तिथि: 11.06.2021 के 5.00 बजे अप, तक परिसमापक को पूर्व सूचना के साथ ईओआई जमा करने की अंतिम तिथिः 11.06.2021 के 5.00 बजे अप. तक

प्रस्तावित नीलामी के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:

 ई—नीलामी "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है", "जो कुछ भी वहाँ है" तथा "उपचार--रहित आधार" पर स्वीकृत सेवा प्रदाता मैं, ई प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (https://ncltauction.auctiontiger.net) के द्वारा आयोजित की जाएगी तथा यह बिक्री बिना किसी वारंटीज तथा क्षतिपूर्ति के होगी। . निर्धारित प्रारूप में बोलियाँ परिसमापक के पास ऑन लाइन जमा की जायेगी। सम्पूर्ण ई—नीलामी

प्रक्रिया के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के साथ बोली प्रपन्न वेबसाईट https://noltauction.auctiontiger.net

से डाउनलोड की जा सकती है। सम्पर्क: श्री प्रयीण + 91-9722778828 पर, ईमेल: praveen.thevar @auctiontiger.net/nclt@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net कम्पनी के साथ अंतरित किये जाने के लिये पहचान की गई परिसम्पत्तियों का विवरण उपरोक्त ई—नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में दिया गया है।

4. परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित निलम्बित रह करने अथवा किसी भी सम्पत्ति या उसके भाग को ई-नीलामी से वापस लेने का अधिकार है।

5. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी। राकेश कुमार जैन (परिसमापक) तिथि: 01 जून 2021 पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01297/2018-19/12068 स्थान : नई दिल्ली ई मेलः rakeshjainca@rediffmail.com